

SHRICON INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L15100RJ1984PLC040606 Registered Office: 112B, First Floor, Shakti Nagar, Kota, Rajasthan-324009

Phone: +91 744 250 0092, 250 0492, 0692,

Website: www.shricon.in | Email: investor.shricon@gmail.com

Date: November 16, 2024

To,

The Manager
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Department
Phirozee Jeejeebhay Tower
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001

BSE Scrip Code:508961

Subject: Newspaper Publication pertaining to Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024.

Respected Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published in English Newspaper "Kota Collage" on 15th November, 2024 & Hindi Newspaper "Chambal Sandesh" on 14th November, 2024 with respect to Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024. The same has been made available on the Company's website (https://www.shricon.in/).

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking you,

For Shricon Industries Limited

Om Prakash Maheshwari Director DIN: 00185677

Enclosed: As above.

The Housemaid: Both Invisible and Essential

SANJAY CHAWLA kotacollage@gmail.com



KOTA. Last week my wife was busy with some religious activity at the local Gurudwara and my housemaid, who does only cleaning work, said to

me, "Bhaiya, should I make breakfast for you. Don't worry, I am not from neech jaati. I belong to the upper caste." It was something ironical for a liberal minded person like me. She was calling me Bhaiya and reminding me of her caste. Both the employer and the employee typically utilize familial terms like "didi, bhaiya, chachi" to describe their working relationship. Everyone agrees that domestic work is an undesirable way to make a living and that it is more of a survival tactic used by poor women.

Recently I watched The Housemaid, a 2010 South Korean psychological thriller film on OTT. A quote from the film says, "In a world of privilege, the housemaid is both invisible and essential," depicts the contradictory status of domestic





workers in socially unequal cultures. The housemaid plays an almost invisible job, disappearing into the

> background of lavish homes in a society where privilege and money frequently eclipse the existence of those who serve the needs of the elite. However, their indispensable nature cannot be questioned, as they serve as the foundation for their employers' luxurious existence.

The work of the housemaid is sometimes overlooked and undervalued, but without their constant commitment, the affluent world would not run smoothly. In the realm of privilege, their importance and necessity are therefore indisputable, even though their presence may become

Dirt: A Symbol of Social Inequality

Dirt has traditionally been a symbol of social inequality, influencing class and status relations, and domestic work is "dirty work." The cultural imaginary of the maid's body as "dirty" has a significant gender component in the Indian context. The idea that the house is a sacred place must be connected to this. According to these fantasies, the women of the family are supposed to perform household duties, especially cleaning, in order to preserve the sanctity of the home. Employing a professional domestic worker merely makes it easier for gendered "dirty labour" to be transferred onto the maid's body in both a literal and symbolic sense, reinforcing the upper-middle-class (and upper-caste) woman's privileges.

An Unregulated Segment of Informal Economy

We Indians are among the world's most "servant" dependents. We really need domestic helpers to do everything from wash our dishes to clean our toilets, watch over our kids to walk our dogs, drive us to work, open our lunchboxes, and iron our clothes. One of the least regulated segments of the informal economy employs an estimated 5 million domestic workers, most of whom are women, and are concentrated in major cities. The relationship between domestic workers, who are frequently migrants from rural areas, and their employers is characterized by power disparities based on gender, caste, class, and ethnicity. Long work hours, verbal and physical abuse, sexual harassment, and pitifully poor pay are some examples of how this shows up. In no other urban Indian situation does class inequality show up as starkly as in employer-domestic worker. Sometimes it reflects in just "normal" settings like we see in residential buildings in big cities have separate elevators earmarked for workers.

The Casteist Idea of Purity-Pollution

The casteist idea of purity-pollution is also deeply ingrained in India's cultural imaginary of "dirty work," which frequently manifests as physical separation and geographical segregation of domestic workers within homes' private spaces. In middle-class Indian homes, caste worries about ritual pollution and contamination from the maid's filthy body are frequently concealed behind a "rational" discussion of health and cleanliness.

Where Indian Feminism Fails



Let us examine the "maid's" vulnerability and her working body via a feminist lens. Recognizing that domestic work is undervalued in patriarchal social institutions has been a fundamental feminist goal with regard to female domestic labour. We have seen how the unpaid and unacknowledged social reproductive labour performed by women in the home, such as caregiving and housekeeping, is crucial to capitalistic patriarchy.

The low-wage and frequently unprotected character of professional domestic employment for women gives this story an intriguing twist: it allows middle-class and upper-class women to become more independent by neatly shifting the burden of housework to their less fortunate peers. This leads us back to the classic feminist challenge of how patriarchy hierarchizes working bodies: whose labour is deserving of praise and how a worker's access to decent rights is still essentially gendered. It appears that the lengthy history of the Indian women's movement has not succeeded in highlighting the problem of domestic workers within the broader feminist goal of acknowledging housework as "work."

One significant setback for the Indian women's movement is the disregard for the rights of domestic workers. One basic reality explains why: the benefits enjoyed by upper-middle-class (and frequently uppercaste) women are directly reliant on the exploitation of women in lower social classes. As a result, the maid's body remains a filthy, labouring entity devoid of dignity and the fundamental rights associated with decent work.

Caption to the photo:

Even in an empty Delhi metro coach, middle-class Indians make their maids sit on the floor.

Kota coaching is our pride -Kota is our heritage

Kota - India's education hub, discussions held on challenges and solutions

KOTA COLLAGE kotacollage@gmail.com KOTA. Kota. A meeting was organized at Rotary Club, Kota by the intellectuals of the city on the deteriorating economy of Kota. In which Founder President, SSI Association, Govindram Mittal, President Vyapar Mahasangh Kranti Jain, Bhamashah Mandi President Avinash Rathi, Secretary SSI Association

Anish Maheshwari, Rotary Club President Mukesh Vyas, National Vice President IMA Dr. Ashok Sharda, President Bar Association, Advocate Manoj Puri, and Convener Nagrik Manch Naresh Jain were present. All the intellectuals put forth their efforts and gave suggestions to improve the coaching environment and

Since 1990, coaching environment was created in Kota and gradually it got recognition as an 'education hub'. Kota's institutes have earned national fame in IIT and medical coaching. Better education environment and quality coaching have made it a popular destination for students.

Convener Nagrik Manch Naresh Jain told how coaching started in 1989 and how everyone supported it. With the help of newspapers and all publications, citizens and coaching institutes, Kota became a coaching hub. Initially, a lot of hard work was done to make Kota a coaching hub. In the same way, back in 1989, Kota became a coaching hub. The atmosphere, competition and faculty of all subjects in one city will not be found in any other city of India. We will have to work hard in the same way again.

In the meeting, Govindram Mittal said that Kota has also been praised by our Prime Minister Narendra Modi. Our Lok Sabha Speaker also hails from Kota, a city that produces engineers and medical profession-

als. His experience will be useful for the country. President Vyapar Mahasangh Kranti Jain said that whenever Kota has faced a crisis, we have solved the problem. Avinash Rathi said that it is our duty to treat all the children who come for coaching as guests so that they can get a place in Kota. We should get a better environment. Anuj Maheshwari said that no other city has an environment like Kota for living. One can roam around comfortably here even at night. Dr. Ashok Sharda said that I had just visited Sikar and I had a



good time there. But if we compare the students, Kota is a very good place for coaching in every way. Mukesh Vyas said that 50 percent of the students of Kota are associated with Kota coaching and 6 students out of top 10 are selected from Kota..

But in the last one or two years, Kota has started being publicised as a 'Suicide City'. According to government statistics, Kota is not in the top 50 in India and top 10 in Rajasthan in terms of suicide incidents. That is why Kota Calling Kota a suicide city is unfair and it harms the reputation of Kota. 70 percent of Kota's economy depends on coaching and related businesses. There are about 20 thousand hostels in Kota, in which more than 1 lakh 40 thousand people get employment. Due to the decrease in the number of students due to the promotion of suicide city, the economic condition of Kota has been deeply affected. In Kota, many other businesses including hostel owners, mess owners, shopkeepers, auto drivers etc. are dependent on coaching. Due to the decrease in the number of students, these businesses are also getting affected. Businesses are in crisis, leading to rising unemployment and economic hardship. In the meeting, the media was requested not to exaggerate the news of suicide so that the image of Kota can improve. Coaching institutes in Kota follow government guidelines.

Media also plays an important role in creating a positive environment. Media should publish positive news instead of showing negative news of Kota. With the positive publicity of media, Kota can regain its identity in the field of education. Many suggestions were also made in the meeting for the students, in which emphasis was laid on setting up mental health counseling and support centers for students and collective efforts and awareness campaigns to reduce exam pressure on students, as well as to take care of mental and emotional well-being of students.

The Alarming Rise of Mobile Addiction

Understanding the Risks and Combating the Habit

KOTA COLLAGE

kotacollage@gmail.com

Mobile addiction, also KOTA. known as nomophobia, has become a pervasive issue affecting millions worldwide. The constant connectivity and instant gratification offered by smartphones have led to a dangerous cycle of dependence, harming mental and physical health, relationships, and

Talking about the risk mobile addiction involves

- 1. Mental Health: Anxiety, depression, and stress are linked to excessive mobile use.
- Sleep Disturbances: Exposure to screens before bed disrupts sleep patterns.
- Social Isolation: Reduced face-toface interactions lead to loneliness and decreased empathy.
- Physical Health: Sedentary behavior contributes to obesity, eye strain, and poor posture.
- Cognitive Impairment: Constant distractions impair attention, memory, and decision-making.

Warning Signs

1. Compulsive checking of notifications 2. Feeling anxious or restless without

- 3. Spending excessive time on social media
- Neglecting responsibilities and relationships
- 5. Experience withdrawal symptoms when phone is taken away

Some measures that may be helpful in combating the problem

- 1. Set boundaries: Designate phonefree zones and times.
- 2. Use apps: Track usage (e.g., Screen
- Time, Freedom) and limit access. 3. Replace habits: Engage in physical
- activities, reading, or hobbies. 4. Schedule digital detox: Regularly
- disconnect for hours or days.
- 5. Seek support: Share concerns with friends, family, or professionals.

Parental Guidance

1. Monitor usage: Set limits and track

responsible usage.

2. Educate children: Discuss risks and

- 3. Encourage physical activities: Promote outdoor play and sports. 4. Model behavior: Demonstrate
- responsible mobile use.
- 5. Create phone-free zones: Designate family time and spaces.

- 1. Public awareness campaigns: Educate about mobile addiction risks.
- 2. Phone-free public spaces: Encourage restaurants, parks, and public areas to promote phone-free environments.
- 3. Employer support: Implement phone-free policies and wellness programs.
- 4. Mobile manufacturers' responsibility: Incorporate addiction-reducing features.
- Research and development: Continuously study mobile addiction and develop effective interventions.

Mobile addiction is a pressing concern requiring immediate attention. By understanding the risks and implementing individual, parental, and societal strategies, we can combat this habit and reclaim a healthier, more balanced lifestyle.

Take control of your mobile use today and start a journey towards a healthier, more connected life.

SHRICON INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 112-B, Shakti Nagar, Kota, Rajasthan - 324009

Ph: 0744-3559282 | E-mail: investor.shricon@gmail.com | www.shricon.in | CIN-L15100RJ1984PLC040606 EXTRACT OF LINAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR FINDED ON 30TH SEPTEMBER 20

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF TEAR ENDED ON SUTH SEFTEMBER, 2024										
					(Amount	in ₹ Lakhs)				
Particulars	Quareter ended (30/09/2024)	Quaretr ended (30/06/2024)	Quaretr ended (30/09/2023)	Half-Year ended (30/09/2024)	Half-Year ended (30/09/2023)	Financial Year ended (31/03/2024)				
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
Total Income from Operations (net)	5.01	19.48	4.51	24.49	26.46	57.42				
Net Profit from Ordinary Activities before tax and Minority Interest	16.62	18.72	15.63	35.34	16.84	87.08				
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	16.63	18.73	15.64	35.36	16.84	87.06				
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00				
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-				
Earnings Per Share (EPS)										
Basic & Diluted EPS before Extraordinary items	1.34	1.51	1.26	2.85	1.36	7.02				
Basic & Diluted EPS after Extraordinary items	1.34	1.51	1.26	2.85	1.36	7.02				
Notes:										

- 1.The financial results for the quarter and Half Year ended 30th September, 2024 have been limited reviewed 2. The above results, duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th November, 2024
- 3. The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2024 filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.shricon.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com

FOR **SHRICON INDUSTRIES LIMITED** OM PRAKASH MAHESHWARI Director (DIN-00185677)

Place: Kota (Rajasthan)

कला महाविद्यालय में भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम

का आयोजन 18 से 20 नवम्बर तक तथा एम.ए./एमएस.सी. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा जून-2024 का आयोजन 21 नवम्बर को महाविद्यालय के पुराने भवन में होगा।

कोटा। गुरुवार 14 नवम्बर 2024



तुलसी विवाह का हुआ आयोजन



संदेश न्यूज। कोटा. श्रीविश्वनाथ महादेव मंदिर टीचर्स कालोनी केशवपुरा कोटा परिसर में महिला मंडल द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद गोपाल ने बताया कि महिला मंडल द्वारा धूम-धाम से राजस्थानी गीतों के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल अध्यक्ष मुक्ता शर्मा एवं कार्य कारिणी सदस्य राजेश गुप्ता, लक्ष्मी भारद्वाज, सुलोचना योगी, सुनीता सैन, रुकमणि रेखा सैन, राजू खंडेलवाल सहित कई महिलाएं उपस्थित रही।

श्रीमथुराधीश मंदिर पर शीतकालीन सेवा प्रारंभ, दर्शनों का समय बदला

संदेश न्यूज। कोटा. शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्रीबड़े मथुराधीश मंदिर पर बुधवार द्वादशी को प्रथम गृह के आदि गृहाधीरश्वर श्रीगिरधरजी का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। इस दिन श्रीठाकुरजी का भारी श्रृंगार किया गया। वहीं बधाई गाई गई। ठाकुरजी जी के सम्मुख गिरधरलाल जी की कुंडली का वाचन किया गया। मंदिर परिसर 'अंखियन के भषण गिरधारी मेरे...' सरीखे कीर्तन से गूंज उठा। मंदिर की ध्वजा बदली गई। अब दर्शनों का समय भी बदल गया है। मंगला का समय 7 बजे, राजभोग -10.45 बजे, उत्थापन - 3.30 बजे, भोग 4.30 बजे, आरती 5 बजे, शयन 6 बजे रहेगा। युवराज गोस्वामी मिलन कुमार बावा ने बताया कि पुष्टिमार्ग में अद्भुद सेवा प्रणाली मिलती है। प्रबोधिनी एकादशी से प्रभु के भोग और वस्त्र सेवा भी बदल गई है। शीतकाल में प्रभु को सिंहासन पर रुई की गादी बिछाना शुरू हुआ तथा रुई की ओढ़नी ओढाई जा रही है। वहीं गोपीवल्लभ भोग, केसर पेठा, जायफल, गन्ने का रस, बैंगन का भर्ता, रतालु, शकरकंद समेत अन्य राजभोग धराए जाते हैं। अंबर, हिना के सुगंधित द्रव्य भी धराए जा रहे हैं। झारीजी में कस्तूरी की पोटली रखी जाने लगी है। ठाकुर जी के ठंड को देखते हुए सिगडी रखना भी प्रारम्भ हो गई है।

केसर काव्य मंच द्वारा साहित्य व सोशल मीडिया विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं

संदेश न्यूज। कोटा. केसर काव्य मंच द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बोरखेड़ा में संस्कृति साहित्य मीडिया फोरम के तत्वावधान साहित्य और सोशल मीडिया विषय पर प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता, काव्य पाठ तथा साहित्य संस्कृति आदि विषयों पर प्रतियोगिताएं हुईं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ प्रीति मीना रही। इन्होंने छात्रों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। केसर मंच की अध्यक्ष डॉ पुष्पा आर्यन ने साहित्य से छात्रों को जोड़ने के लिए स्कूल का आभार जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एजाज खान ने की और संचालन कौशल किशोर ने किया।

कौटिल्य कॉलेज कोटा ने जीती इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता



संदेश न्यज। कोटा. सौरभ टीटी कॉलेज खेडा हिंडौन. करौली में आयोजित इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता में कौटिल्य कॉलेज कोटा ने प्रतियोगिता के फाइनल मां भारती कॉलेज को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। कौटिल्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर आयुष विशष्ट ने बताया कि फाइनल मुकाबले में कौटिल्य कॉलेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए जिसमें हर्ष यादव ने 52 रन बनाते हुए अर्धशतक जमाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए मां भारती कॉलेज ने संघर्ष किया लेकिन टीम 16 रन से मैच हार गई। कौटिल्य कॉलेज की ओर से गेंदबाजी करते हुए निक्की चौहान ने तीन विकेट लिए। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर आयोजकों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने पर कौटिल्य कॉलेज के चेयरमैन हशरूद्दीन पठान ने टीम के हेड कोच मयूर गोचर एवं सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

बिजली बंद कोटा. सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तकः केशवपुरा 7 सेक्टर आदि। दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक: आरकेपुरम सेक्टर ई आदि। **सुबह 10:00 से शाम 4:00** बजे तकः चंद्राविला, चंद्रा होम्स, ओम वाटिका और सोगरिया रेलवे फाटक के आसपास का क्षेत्र आदि। **सुबह** 10:00 से दोपहर 1:30 बजे तकः सिल्वर बेल्स स्कूल सोगरिया के आसपास आदि। **सुबह 10:00 से दोपहर 3:00** वजे तकः पूनम कॉलोनी, सोगरिया, अभिषेक एन्क्लेव, वैभव एस्टेट, गणपित नगर, मधु नगर, वैशाली नगर, प्रताप टाउन शिप, गिरिराज धाम, अक्षत विला, कृष्णा रेजीडेंसी, ओम वाटिका, चंद्र विला, अनाद विहार, गणेश एन्क्लेव, श्रीनाथ रेजीडेंसी, विनायक धाम, दुर्गा नगर, दुर्गा नगर विस्तार, यश विहार, अमृत कलश, अभेड़ा महल, करणी माता मंदिर, पावर हाउस, नई पत्थर मंडी, पत्थर मंडी चौराहा, मोहन लाल सुखाड़िया आवासीय योजना आदि। **सुबह** 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक : पर्ल रेजीडेंसी, रिद्धि सिद्धि नगर प्रथम, गणपित रेजीडेंसी, धन धन सतगुरु कॉलोनी आदि। दोपहर 12:00 से शाम 4:00 बजे तक: बड़गांव कृषि क्षेत्र, गुरुद्वारा के आसपास आदि। **सुबह 9:30** से दोपहर 12:30 बजे तकः बैंक ऑफ बड़ौदा व आसपास का क्षेत्र, गुमानपुरा आदि। **सुबह 7:00 से 10:00 बजे** तकः लघु औद्योगिक क्षेत्र, नया बस स्टैंड, फ्लाईवुड मार्केट, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के आसपास आदि। **सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 बजे तक:** प्लॉट नंबर एफ-442 ए आईपीआईए आदि। सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तकः महावीर नगर प्रथम, सेंट्रल मेडिकल के आसपास क्षेत्र, शांति कुंज आदि।

संदेश न्यूज। कोटा. राजकीय कला महाविद्यालय में बी.ए. सेमेस्टर-द्वित्तीय भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा जून-2024

समरसता, सुशासन और अध्यात्म की पर्याय थी अहिल्याबाई:भैय्या जोशी

संदेश न्यूज। कोटा.

महिला समन्वय कोटा विभाग द्वारा पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म के त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मातृशक्ति सम्मेलन श्रीरामशांताय आयोजन सभागार, महावीर नगर तृतीय में किया गया। सम्मेलन का प्रारंभ अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश भैया जोशी, श्वेता जैन, विभाग संयोजिका, महिला समन्वय, प्रीति, मुख्य अतिथि व महिला उद्धमी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं भारतमाता की छवि पर पुष्प अर्पित करने के

कार्यक्रम के प्रारंभ में नन्ही बालिकाओं द्वारा नृत्य के माध्यम से शिवस्तुति प्रस्तुत की। महिलाओं

संदेश न्यूज। कोटा.

प्रेमप्रकाश आश्रम के आश्रम प्रभारी

संत श्यामलाल प्रेमप्रकाशी ने

बताया कि प्रेमप्रकाश आश्रम पर

हवन, यज्ञ, पूजन के साथ प्रारम्भ

हुआ। इसके बाद उपरांत

प्रेमप्रकाश मंडलाध्यक्ष सद्गुरु स्वामी

भगतप्रकाश महाराज और संत

मण्डल द्वारा पवित्र प्रवचन, सत्संग

और भक्ति संगीत का आयोजन

आश्रम प्रवक्ता हरि प्रकाश

पंजवानी ने बताया कि 9.00 बजे

से निःशुल्क नेत्र एवं दंत रोग

शिविर का आयोजन सद्गुरु आई

एण्ड डेंटल क्लिनिक, बजरंग नगर

पर किया गया, जिसमें लगभग

श्री कार्तिक महोत्सव के दौरान

नेत्र एवं दंत रोग परामर्श शिविर



के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए एक नाटिका की प्रस्तुति दी गई। मुख्य वक्ता भैया ने पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होल्कर को साहस, शक्ति, धर्म व अध्यात्म को पुरुषार्थ का प्रतीक बताया। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि देवी अहिल्या बाई राज माता, महारानी भी थीं परंतु उनका परिचय लोकमाता

147 मरीजों को निशुल्क परामर्श

तथा 12 मरीजों को आँखों के

ऑपरेशन हेतु चयनित किया गया।

शिविर में डॉ. सुरेश छाबड़ा, डॉ.

भारती छाबड़ा, डॉ. ट्वंकल

छंगलानी और डॉ. एच. एन. सोनी

एवं उनकी टीम द्वारा सेवायें प्रदान

कि गुरुमहाराज ने अपने पावन

वाणी से फरमाया कि मनुष्य का

शरीर मिथ्या मात्र है जिसको

चलाने वाली शक्ति उसके अंदर

का अंश है जिसको जानने के लिये

गुरु का सहारा लेकर, सांसारिक

वस्तुओं का त्याग कर तथा नाम

रूपी नैया का सहारा लेकर पाया

स्वामी मनोहर लाल ने बताया

जीवन में पुण्य कर्मों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देवी अहिल्या बाई के जीवन से कुशल प्रशासन, लोकहित, न्याय, धार्मिक उत्थान, परुषार्थ, सामाजिक समरसता आदि गुणों को आज की सामाजिक व्यवस्था में आत्मसात किया जाना

संदेश न्यूज। कोटा.

श्री श्याम मित्र मंडल संस्था द्वारा

खाट वाले श्याम धणी सरकार को

जन्म महोत्सव धूमधाम से दशहरा

मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच पर

मनाया जाएगा। अध्यक्ष सुरेन्द्र

गोयल ने बताया कि कार्तिक की

शुक्ल पक्ष की एकादशी खाटू वाले

श्याम प्रभु का अवतरण दिवस

होती है, जिसे प्रत्येक वर्ष संस्था

द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया

जाता है। सचिव राजेश चौधरी ने

बताया कि इस महोत्सव के

अर्न्तगत श्रीराम रंग मंच दशहरा

मैदान में सांय 8 बजे से भजन

अमृत वर्षा का आयोजन किया जा

रहा है। कोषाध्यक्ष महेन्द्र मसांका

एवं मंडल संयोजक कमल

अग्रवाल ने बताया की श्याम धणी

प्रकार माता अहिल्या बाई ने एक बार अपने पति के व्यक्तिगत खर्चों के लिए राजकोष से धन देने से मना कर दिया एवं कहा कि राजकोष का धन देश की जनता का है, स्वयं का नहीं। इस प्रकार अपने विवेक एवं आदर्श समन्वय का उदाहरण दिया। अपराध को रोकने एवं सामाजिक कल्याण के

श्री श्याम मित्र मंडल मनाएगी श्याम धणी का जन्मोत्सव

के जन्मोत्सव में भजन रस सरिता

बहाने श्री वृदांवन धाम से बाबा के

अनन्य भक्त भजन रचियता एवं

प्रवाहक नंदिकशोर शर्मा, नंदू भैया,

कोलकाता से रवि बेरीवाल एवं

निवाई से राजू खंडेलवाल को

आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम

संयोजक जितेंद्र शर्मा एवं प्रवीण

अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर

पर बाबा का भव्य दरबार सजाया

जाएगा, जिसमें दिल्ली एवं

कोलकाता से विशेष प्रकार के

मंगवाये फुलो के गजरे से बाबा का

अनुपम श्रंगार किया जाएगा। पूरे

पांडाल को गुब्बारे एंव विभिन्न

लाइटों से सजाया जाएगा एवं पुष्प

व इत्र वर्षा की जाएगी। कार्यक्रम

संयोजक लोकेश गुप्ता एवं पंकज

बजाज ने बताया कि महोत्सव

नागरिकों के लिए अजीविका निश्चित की एवं डाक व्यवस्था की भी शुरूआत की, साथ ही अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए सभी रियासतों को एक होने का आह्वान भी किया जो उनकी नेतृत्व क्षमता व कुटनीतिक दूरदर्शिता को भी दशार्ता है।

मात्र अपनी रियासत ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार व निर्माण करके उन्होंने राष्ट्रीय एकता संदेश दिया था। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने महेश्वरम साड़ी उद्योग विकसित किया जो आज भी रोजगार का प्रमुख साधन है। महिलाओं के उत्थान के लिए सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया व विधवा महिलाओं के सरंक्षण हेत उचित उपाय

जाएगा। उन्होंने बताया कि

जम्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्तों में

संप्रदाय के व्यक्ति एक साथ बैठ कर भोजन करते थे. सादगी इतनी कि वे स्वयं भी उन्हीं के साथ भोजन करती थी। उच्च चारित्रिक मूल्यों को जीने वाली देवी अहिल्या बाईं होलकर हमे सदियों तक प्रेरणा देती रहेंगी।

पश्चिम मध्य रेल ई–निविदा सूचना

ारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर सं न्नलिखित कार्य की ई-निविदा आमंत्रित करते MATMOVMENT-07 कार्य का विवरण: मारु डेब्बा मरम्मत कारखाना कोटा प.म.रे. परिसर ग हुंट्रा एवं इंटर शॉप मटेरियल मूवमेंट और रुट्टी १५४ इंटर साथ मटारवेल मूपमेट जा हैंडलिंग का कार्य। **अनुमानित लागत** ₹ 1,06,99,776.00/**- निविदा प्रपत्र राशि** नेल **बयाना राशि: ₹2.03.500.00/- का**र पूर्ण करने की अवधि: 12 माह निविदा बंद / खोलने की तारीख और समय: बंद होगा 11:30 बजे नांक 04.12.2024 एवं खोला जाएगा 12:00 बजे दिनांक 04.12.2024. ई-निविदा वेबसाइ http://www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दे ाई है तथा विवरण मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, कोटा के प्रगति अनुभाग के नोटिस बोर्ड ार देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई–निविदा वे गध्यम से इसी वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर-॥ मा.डि.म.कारखाना, प.म.रे., कोटा ज

इस निविदा के लिए मैनुअल ऑफर स्वीकार नर्ह केए जाएंगे। यदि ऐसा कोई ऑफर प्राप्त होता है त

विशेष बधाई भी बांटी जाएगी।

ई-निविदा सूचना संख्या -09/2024-25

कार्यालय नगर पालिका मण्डल चिडावा (झुझुन्

नगरपालिका चिड़ावा द्वारा स्ट्रीट लाईट मेंटिनेंस संबंधी कार्य के लिए सक्षम संवेदको से –निविदा पद्धति से ऑनलाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदक निविदा वेबसाईट <u>http://www.sppp.rajasthan.gov.in</u> & <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u>

ाध्यम से निविदा में भाग ले सकते है। NIB Code-DLB2425A3817 UBN No. - DLB2425SLRC11752

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चिडावा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

मांक : एफ-15/क्.भू.रू./2024/2795 -: विज्ञप्ति :-सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटडी में स्थित कृषि भूषि योजना आदित्य आवास भूखण्ड संख्या 98 खसरा नं. 224, 223 आवेदक/आवेदिका श्री मनोरंजन सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह निवासी के०आर० 73 सिविल लाईन न्यापुरा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम स्तान्तरण हेत न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तत किया गया है। उक्त भखण्ड का पटटा क्रमांक 2764 दिनांक 05/11/2003 को श्री हिरेन कुमार पंड्या पुत्र श्री धनशंकर पंड्या के पक्ष में जार्र केया गया था। पट्टाधारी उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि॰ विक्रय पत्र दिनांक 04/06/2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री गोपाल लाल चौरसिया पुत्र श्री चन्द किशोर चौरसिया द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः श्री मनोरंजन सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। - उपसंचिव कोटा विकास प्राधिकरण

मेवाड़ा कलाल संस्था ने दिया ज्ञापन

संदेश न्यूज। कोटा.

मेवाड़ा कलाल संस्था कोटा द्वारा उपखण्ड अधिकारी (कोटा) को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि 80 फीट रोड बोरखेड़ा पर चारभुजा नाथ मन्दिर मेवाड़ा कलाल समाज कोटा की भूमि, भूमाफियाओं बेचने का प्रयास किया जा रहा है।

समाज के अध्यक्ष विकास मेवाड़ा ने बताया कि सरकार द्वारा नामांतरण पर, गलत नामान्तरण होने पर न्यायालय राजस्व अजमेर से स्थगन आदेश ले रखा है। इस क्रम में भूमाफिया ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि (डोली) मूर्ति मंदिर चारभुजा नाथ मेवाड़ा कलाल कोटड़ी से हटा कर रमेशचन्द बैरागी ने अपने नाम नामांतरण करवा लिया एवं भू माफियाओं ने 16 बीघा जमीन में 10 बीघा को गलत तरीके से पूर्व में बेच दिया। 6 बीघा भूमि को भी कूटरचित दस्तावेजों द्वारा रूपए-पैसे का लेन-देन कर राजस्व मंदिर अजमेर से आदेश लेकर भूमि नामांतरण मंदिर मूर्ति चारभुजा नाथ से हटाकर 6 बीघा रमेश वैष्णव ने अपने नाम (पुजारी) करा ली। उसमें कोटा रेवेन्यू विभाग द्वारा नामांतरण पर इस

तरह आदेश की करवाई 2019 से राजस्व मंडल में विचाराधीन है। कोटा मेवाड़ा कलाल संस्था (मंदिर भूमि विराजमान कोटड़ी) में स्थगन प्रार्थना पत्र एवं दांवा 2020 में न्यायालय दे दी। उपखंड अधिकारी कोटा में विचाराधीन है। इस भूमि स्थानांतरण करने में कई पुलिस अधिकारी गुंडे एवं भू भूमाफिया गैंगस्टर एवं शराब माफिया जुड़े हुए हैं जिसका केस नंबर 13-14-2022 है। उक्त मंदिर की भूमि जो गलत तरीके से भूमाफियाओं के खाते से निकाल कर मंदिर मूर्ति चारभुजा नाथ मंदिर मेवाड़ा कलाल कोटड़ी पर वापस नामांतरण करने के लिए मेवाडा कलाल संस्था अध्यक्ष एवं समस्त कलाल समाज ने ज्ञापन दिया। मांग करते हुए कहा कि इस मामले में कलाल समाजहित में उचित कार्रवाई की जाए।

बाबा को छप्पन भोग लागया सार्वजनिक सुचना

वर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष Annapurna Finance Pvt. Ltd. (AFPL) शाखा कोटा वन्द्रघटा. कोटा को श्री मोहन सिंह राठौड़ पत्र स्व. श्री रेवत सिंह राठौड निवासी १४२–ए, संजय गांधी नगर, कोटा हाल निवासी एडवर्ड पुत्र श्रों के . लोरेन्स एवं श्रीमती कुमुद बाला ऐन्जलीना पत्नी श्री के . एडवर्ड निवासीगण 244-ए, संजय गांधी नगर, कोटा से उनके स्वामित्व के मकान नम्बर २४४-ए पैमायशी-१३४.१६ वर्गगज वाके संजय गांधी नगर कच्ची बस्ती, कोटा (राज.) के क्रय करने हेतु ऋण दिया जा रहा है। यह कि उक्त मकान क भावंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जर्ये नियमन आवंटन/अधिकार पत्र क्रमांक- १७८ दिनांक २१.१२.२००२ प्रे श्री के . एडवर्ड एवं श्रीमती कमद बाला ऐन्जलीना के पक्ष ग किया गया था जिसकी लीज डींड भी नगर विकास न्यास, कोट दारा श्री के . एडवर्ड एवं श्रीमती कुमुद बाला ऐन्जलीना के पक्ष में देनांक 18.01.2003 को जारी की गई जिसका पंजीयन गर्यालय उप पंजीयक. कोटा में दिनांक-31.01.2003 को ह रहा है। श्री के . एडवर्ड एवं श्रीमती कुमुद बाला ऐन्जलीना ने उक्त मकान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियां करने हेतु श्री मोहन सिंह राठौड़ को अपना मुख्तार आम नियुक्त कर एक मुख्तारना आम श्री मोहन सिंह राटौड के पक्ष में आलेखित किया हुआ है जसका प्रमाणीकरण श्री नरेन्द्र सिंह नोटेरी कोटा के यह दिनांक-01.08.2014 को हो रहा है। श्री मोहन सिंह राठौड़ द्वारा बहैसियत मुख्तार आम उक्त मकान का विक्रय श्री मोहम्मव इदरीस को किया जा रहा है तथा श्री मोहम्मद इदरीस द्वारा उक मकान को क्रय करने हेतु Annapurna Finance Pvt Ltd. (AFPL) शाखा कोटा से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। श्री मोहन सिंह राठौड़ द्वारा बहैसियत मुख्तार आम उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने तथा Annapurna Finance Pvt. Ltd (AFPL) शाखा कोटा द्वारा उक्त संपत्ति को क्रय करने हेतु श्री मोहम्मद इदरीस को ऋण देने के सम्बंध में यदि किसी भी व्यक्ति. बैंक, संस्था या अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपति हो त वह अघोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपर्न आपति प्रस्तुत करें । अन्यथा बाद में कोई आपति मान्य नहीं होगी तथा श्री मोहम्मद इदरीस द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवा लिया जावेगा।

भवदीय- अब्दुल शकील, एडवोकेट, मो. 7023198160

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंक शाखा परिसर के लिए विज्ञप्ति

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला कोटा की **नान्ता-कोटा एवं कैथून** शाखा के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य बाजार/लोकेशन में लगभग 1200 वर्गफुट कारपेट एरिया एवं शाखा **रामगंजमंडी** के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में एवं **गिरधरपुरा-कोटा** के लिए कुन्हाड़ी पेट्रोल पम्प से पाटन चौराहे के मध्य में लगभग 1500 वर्गफुर कारपेट एरिया का सुविधायुक्त व्यावसायिक परिसर किराये / लीज पर लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है । इच्<mark>कु</mark>क परिसर मालिक अपना प्रस्ताव मय विस्तृत विवरण जिसमें परिसर की स्थिति, प्रस्तावित भवन का नक्शा,क्षेत्रफल भवन के दस्तावेज की फोटोप्रति, वाहन पार्किंग, किराया एवं लीजअवधि की जानकारी के साथ प्रस्ताव सीलबंद लेफाफे में प्रेषित करें | प्रस्ताव पत्र हमारी वेबसाइट <u>www.brkgb.com</u> से प्राप्त किया जा सकता है । बैंक द्वारा उक्त प्रकिया में किसी भी समय पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी प्रकार का दावा अथवा विवाद मान्य नर्ह होगा। बैंक किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

फाफे पर "शाखा गिरधरपुरा / नान्ता / रामगंजमंडी / कैथून परिसर हेतु प्रस्ताव दिनांक 05.12.2024" अंकि करें | प्रस्ताव दिनांक 05.12.2024 साथं 5.00 बजे तक निम्न पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए । क्षेत्रीय प्रबन्धक, बड़ौदा 0744-2391746, 7073457304

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वत्त कोटा <u>जाहिर आम सूचना</u>

आवास संख्या 2/514 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री कृष्ण शर्मा पुत्र श्री रालाल शर्मा को किया गया था। श्री कष्ण शर्मा पत्र श्री भरालाल शर्मा की मत्य उपरांत उक्त आवास क . स्तांतरण/प्रतिस्थापन दिनांक 25.07.1996 को अपनी पत्नी श्रीमती चंद्रकला बाई के नाम किया गया। श्रीमती द्रकला बाई पत्नी स्व. श्री कृष्ण शर्मा के अनुरोध पर इनके नाम के साथ इनके पुत्र श्री लोकेश गौत्तम का ११म दिनांक 14.06.2010 को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती चंद्रकल वाई पत्नी स्व. श्री कष्ण शर्मा एवं श्री लोकेश गौत्तम पत्र स्व. श्री कष्ण शर्मा के नाम दिनांक 30.06.2010 को संयुक्त रूप से किया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती चंद्रकला बाई पत्नी स्व. श्री कृष्ण शर्मा एवं श्री लोकेश त्तम पत्र स्व. श्री कष्ण शर्मा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 20.11.2014 को श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरूण गौत्तम को किया गया। श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरूण गौत्तम का नाम दिनांक 07.01.2015 को विकय पत्र के आधार पर मण्डल अभिलेख में दर्ज किय गया। तत्पश्चात् श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरूण गौत्तम द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने ज बिहारी को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती सविता गौत्तम पत्नी श्री कुज बिहारी मुख्तार भाम श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरूण गौत्तम द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का त्रैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.01.2024 को श्री कुज बिहारी पुत्र श्री अमृत लाल को केया गया। श्री कुज बिहारी पुत्र श्री अमृत लाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्य 0/514 स्वामी विवेकानन्द्र नगर, कोटा को विकय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख ' दर्ज करने हेत् आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार र श्री कुज बिहारी पुत्र श्री अमृत लाल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कुज बिहारी पुत्र श्री अमृत लाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कुज बिहारी पुत्र श्री अमृत लाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

- उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत, कोटा

अन्नकूट महोत्सव व वैश्य महासंगम की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप



संदेश न्यूज। कोटा.

अन्नकूट महोत्सव व वैश्य महासंगम-2024 का आयोजन सीएडी ग्राउंड में 16 नवम्बर हो आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव की तैयारियों का जायजा अध्यक्ष दिनेश विजय द्वारा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश अपनी टीम

दिनेश विजय ने कहा कि किसी भी रूप में किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। लोगों को घर जैसा माहौल मिलना चाहिए। व्यवस्थाओं में कोईकमी नहीं रहना चाहिए। मुख्य संयोजक प्रकाश चंद गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय वैश्य

महासम्मेलन जिला कोटा की ओर से आयोजित किए जा रहे अन्नकूट महोत्सव व महासंगम को लेकर वैश्य समाज के सभी घटकों को जिम्मेदारियां सौंपने के साथ ही घर-घर पहुंचकर सम्पर्क कर पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया जा रहा है। दिनेश विजय ने कहा कि भोजन की क्विालिटी को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भोजप सात्विक होना चाहिए और अच्छी खाद् पदार्थो का उपयोग किया जाए। इस अवसर पर जगदीश चुने वाला, भोजन समिति के संयोजक द्वारका प्रसाद खंडेलवाल, कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास जैन, सेवारत वैश्य के महामंत्री अरविंद गुप्ता, संभाग प्रभारी डॉ आर के राजवंशी

सहित कईलोग उपस्थित रहे।

पंजीकृत कार्यालयः 112-बी, शक्ति नगर, कोटा (राज.) – 324009

CIN: L15100RJ1984PLC040606, दूरभाष नं: 0744—2500492, वेबसाइटः www.shricon.in, ई—मेलः investor.shricon@gmail.com

		(रू. लाख में)				
विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2024	समाप्त तिमाही 30.06.2024	गत साल की समाप्त तिमाही के आंकड़े 30.09.2023	अर्घवार्षिक 30.09.2024	गत साल की अर्घवार्षिक के आंकड़े 30.09.2023	गत साल की वित्तीय परिणाम के आंकड़े 31.03.2024
	लेखा अपरीक्षित	लेखा अपरीक्षित	लेखा अपरीक्षित	लेखा अपरीक्षित	लेखा अपरीक्षित	लेखा परीक्षित
प्रचालन से कुल आय	5.01	19.48	4.51	24.49	26.46	57.42
अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण/ कर और/या असाधारण मद्दों से पहले)	16.62	18.72	15.63	35.34	16.84	87.08
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण मद्दों के बाद)	16.63	18.73	15.64	35.36	16.84	87.06
अवधि के लिए कर और/या असाधारण मद्दो के बाद से शुद्ध लाभ/(हानि)	16.63	18.73	15.64	35.36	16.84	87.06
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	16.63	18.73	15.64	35.36	16.84	87.06
इक्विटी शेयर पूंजी	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
पिछली वर्ष की ऑडिट बैलेंस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर)			820	e	8-	ries.
आय प्रति शेयर (रू.10/- प्रत्येक) (बेसिक और डायलुटेड)	1.34	1.51	1.26	2.85	1.36	7.02

2. उपरोक्त परिणाम, लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत समीक्षा की गई और दिनांक 12 नवंबर, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई। 3. उपरोक्त समाप्त हुई तिमाही 30.09.2024 लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत स्वरूप का एक संक्षिप्त स्वरूप है जो सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण की आवश्यकता) नियमन 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर की गई है लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप समाप्त तिमाही 30.09.2024 के लिए स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.shricon.in) पर उपलब्ध हैं।

दिनांकः 13.11.2024 स्थानः कोटा

श्रीकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओम प्रकाश माहेश्वरी



